



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 5—मार्च 11, 2016 (फाल्गुन 15, 1937)

No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 5—MARCH 11, 2016 (PHALGUNA 15, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और
अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 फरवरी 2016

सं.डीपी/पर्स-1/2016/23/3/45/2014-पर्स-1—श्री एस. बिल्ली क्रिस्टोडोस, पुलिस उपाधीक्षक, के.अ.ब्यूरो, दिविपुस्था, एससीबी, चेन्नई ने अधिवर्षिता की आयु होने पर 31.01.2016 के अपराह्न से पुलिस उपाधीक्षक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

दीपिका सूरी
उप-निदेशक(कार्मिक)

नई दिल्ली—110003, दिनांक 16 फरवरी 2016

सं. डीपीपर्स—I/2016/26/11/3/2015—राष्ट्रपति, के.अ.ब्यूरो के निम्नलिखित लोक अभियोजकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथियों से के.अ.ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में प्रोन्नति पर वरिष्ठ लोक अभियोजकों के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	वरिष्ठ लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति की तिथि
1.	प्रवीन श्रीवास्तव	31.12.2015
2.	ब्रिजेश सिंह	31.12.2015
3.	सितांशु शेखर मिश्रा	31.12.2015
4.	मनोज शुक्ला	31.12.2015
5.	डा. पद्मिनि सिंह	31.12.2015
6.	नरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव	31.12.2015
7.	अरविन्द कुमार मिश्रा	31.12.2015
8.	प्रनित शर्मा	31.12.2015
9.	श्रीमति पूर्णिमा डी. एस.	01.1.2016
10.	रमन कुमार	31.12.2015
11.	एस. सी. जायसवाल	31.12.2015
12.	पंकज गुप्ता	31.12.2015
13.	मनमोहन शर्मा	31.12.2015
14.	तेजस्वी प्रकाश नेगी	31.12.2015
15.	ब्रिजेश कुमार सिंह	31.12.2015
16.	एस. कृष्ण कुमार	31.12.2015
17.	शैलेश नरायन पाठक	31.12.2015

डी.पी. सिंह
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपीपर्स—I/2016/27/36/2/2016—राष्ट्रपति, के.अ.ब्यूरो के निम्नलिखित सहायक लोक अभियोजकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथियों से के.अ.ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में प्रोन्नति पर लोक अभियोजकों के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति की तिथि
1.	शिवानन्दा बी. आर.	29.01.2016
2.	विजय कृष्णा पाठक	29.01.2016
3.	रजत कुमार श्रीवास्तव	01.02.2016
4.	नीतु सिंह	29.01.2016

क्रम सं	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति की तिथि
5.	रतन दीप सिंह	29.01.2016
6.	मास्के धमानन्द नागनाथ	29.01.2016

डी.पी. सिंह
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 11 फरवरी 2016

संख्या-पी. सात-1/2016-मंत्रालयिक—सुबेदार मेजर (मंत्रालयिक) से सहायक कमाण्डेन्ट (मंत्रालयिक) के पद पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप निम्नलिखित सुबेदार मेजर(मंत्रालयिक) ने प्रत्येक के सामने दर्शाए गए कार्यालयों एवं तिथियों को सहायक कमाण्डेन्ट (मंत्रालयिक) का कार्यभार ग्रहण कर लिया है :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	कार्यालय जहाँ कार्यभार ग्रहण किया	कार्यग्रहण करने की तिथि
01	श्री जगबन्धु सोरेन, सहायक कमाण्डेन्ट, ईरला-10550	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भोपाल ।	20/08/2015 (पूर्वा)
02	श्री चन्द्र मोहन चक्रवर्ती, सहायक कमाण्डेन्ट, ईरला-10554	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, राँची ।	31/07/2015 (पूर्वा)
03	श्री विरेन्द्र कुमार सिंह, सहायक कमाण्डेन्ट, ईरला-10556	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, अमेठी ।	20/07/2015 (पूर्वा)
04	श्री शिवराम घोष, सहायक कमाण्डेन्ट, ईरला-10557	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, बिलासपुर ।	10/08/2015 (पूर्वा)
05	श्री रघुनन्दन खण्डेलवाल, सहायक कमाण्डेन्ट, ईरला-10559	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज मुख्यालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, कूटा ।	03/08/2015 (पूर्वा)
06	श्री बाघदमन सिंह, सहायक कमाण्डेन्ट, ईरला-10560	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज मुख्यालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, जम्मू ।	13/07/2015 (पूर्वा)
07	श्री आर. के. राउत, सहायक कमाण्डेन्ट, ईरला-10564	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सिलचर ।	30/06/2015 (पूर्वा)
08	श्री जी. पी. राउतराय, सहायक कमाण्डेन्ट, ईरला-10580	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मुजफ्फरपुर ।	19/10/2015 (पूर्वा)
09	श्री के. नवनीता कुमार, सहायक कमाण्डेन्ट, ईरला-10731	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, श्रीनगर ।	26/12/2015 (पूर्वा)
10	श्री एम. मारीचामी, सहायक कमाण्डेन्ट, ईरला-10733	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज मुख्यालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नीमच ।	09/12/2015 (पूर्वा)
11	श्री नत्थू सिंह, सहायक कमाण्डेन्ट, ईरला-10734	कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान सेक्टर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, जयपुर ।	17/11/2015 (पूर्वा)
12	श्री सी. रघुनाथन, सहायक कमाण्डेन्ट, ईरला-10735	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, कूटा ।	14/12/2015 (पूर्वा)
13	श्री मधूसूदन, सहायक कमाण्डेन्ट, ईरला-10738	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, इलाहाबाद ।	12/12/2015 (पूर्वा)

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	कार्यालय जहाँ कार्यभार ग्रहण किया	कार्यग्रहण करने की तिथि
14	श्री प्रदीप कटोच, सहायक कमाण्डेन्ट, ईरला-10739	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज मुख्यालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, श्रीनगर साउथ ।	16 / 11 / 2015 (पूर्वा)
15	श्री जरनैल सिंह, सहायक कमाण्डेन्ट, ईरला-10745	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, रॉची ।	07 / 01 / 2016 (पूर्वा)

एस. के. उपाध्याय
पु०उप०महा० (संगठन)

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-03, दिनांक 9 फरवरी 2016

सं० ई-38013/01/अ.सू./रा.प.अ./2016/कार्मिक.1/77—सक्षम अधिकारी, के०औ०सु०बल नियमावली 2001 के नियम 5 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए के०औ०सु०ब० के निम्नलिखित निरीक्षक (कार्य) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से सहायक कमाण्डेंट (लोकल रैंक) प्रदान करते हैं :-

अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	सहायक कमाण्डेंट (लोकल रैंक) में पद ग्रहण की तिथि
इजहार अहमद	एनएसपीसीएल राउरकेला	05.02.2016(अपराहन)

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के०औ०सु०ब

सं० ई-38013/01/अ.सू./रा.प.अ./2016/कार्मिक.1/79—राष्ट्रपति, के०औ०सु०ब के निम्नलिखित वरिष्ठ कमाण्डेन्ट/अग्नि को रु. 37,400-67,000/(पीबी-4) (+) ग्रेड पे रु. 8,900/- के वेतनमान में के०औ०सु०ब में उप. महानिरीक्षक/अग्नि के पद पर पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं :-

अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	उप.महानिरीक्षक/अग्नि के रूप में कार्यभार संभालने की तिथि
राजनाथ सिंह	बल मुख्यालय नई दिल्ली	05.02.2016 (अपराहन)

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के०औ०सु०ब

दिनांक 15 फरवरी 2016

सं० ई-38013/01/अ.सू./रा.प.अ./2016/कार्मिक.1/88—राष्ट्रपति, निम्नलिखित निरीक्षक (स्टेनो) को रुपये 15,600-39,100 (+) ग्रेड वेतन रुपये 5,400/- के वेतनमान में के०औ०सु०ब में सहायक कमाण्डेन्ट (जेएओ) के पद पर पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं:-

अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	नियमित आधार पर सहायक कमाण्डेंट/जेएओ के रूप में पद ग्रहण की तिथि
वरिन्दर कुमार भाटिया	दसवी आ०वा० आरकोणम	12.02.2016 (पूर्वाहन)

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के०औ०सु०ब

परमाणु ऊर्जा विभाग
(राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र)

इन्दौर, दिनांक 15 फरवरी 2016

सं. आरआरकेट/प्रशा/2015/भ-805/136—भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित तकनीकी अधिकारी/बी (पीबी: 2, रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/-) को पदोन्नति पर दिनांक 01-07-2015 (पूर्वाह्न) से तकनीकी अधिकारी/सी (पीबी: 3, रु. 15,600—39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- के पद पर राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, इंदौर में आगामी आदेश होने तक नियुक्त करते हैं :-

सं. सं. संख्या	नाम	प्रभाग/अनुभाग
1529	श्री मो. अली अंसारी	एलईएसडी

बी.के. जेना
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
(कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय)

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

पुणे, दिनांक 16 फरवरी 2016

सं. आर ओ सी पी/एफ टी ई/560(5)/2016/1032— कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गई हैं :-

क्र.सं.	सी आय एन	कम्पनी का नाम
1	U74999PN2010PTC137612	रुद्रा केटरींग सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2	U55101PN2013PTC146194	ओल्ड बॉयज फूड एंड हॉस्पिटालीटी प्रायव्हेट लिमिटेड
3	U72900PN2011PTC139287	वेंचुरीया कन्सल्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
4	U74900PN2013PTC147336	एलकोट इंजीनीयरींग सीस्टीम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
5	U63090PN2012PTC145077	हेलो वींग्स ट्रावल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
6	U74900PN2010PTC137650	यूनीसार मार्केटींग प्रायव्हेट लिमिटेड
7	U52399PN2012PTC145059	रींद्धी सीद्धि एवेन्यू प्रायव्हेट लिमिटेड
8	U29244PN2013PTC147096	एथैयर माईक्रो प्रायव्हेट लिमिटेड
9	U74900PN2012PTC145147	गौरी कोर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड
10	U29268PN2011PTC139616	शूभम टुल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
11	U15136PN2012PTC145464	ऑल गोल्ड पिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
12	U55101PN2005PTC021310	कॉनशीप हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड

क्र.सं.	सी आय एन	कम्पनी का नाम
13	U28999PN2010PTC137426	एक-ऑंकार ऑटो एंजीनीयरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
14	U01122PN2005PTC021730	बोनी इदी आगो फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
15	U72200PN2011PTC140520	अंबरेला ईफो टेक प्रायव्हेट लिमिटेड
16	U74900PN2010PTC136565	पी-ट्रोनीक्स कंट्रोलस प्रायव्हेट लिमिटेड
17	U74999PN2010PTC135297	ट्रकपॉईंट ट्रेडेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
18	U29222PN2013FTC148178	वीक्यूरा इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
19	U74140PN2010PTC137107	ओवरऑल मैनेजमेंट कंसल्टन्सी एंड ईफोमिडीया सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
20	U74999PN2014PTC151629	सुपर डेन्टल डायग्नोस्टीक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
21	U45400PN2013PTC149471	प्रीजम रीअल स्पेसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
22	U40106PN2012PTC143067	हाय फ्लक्स सोलार फ्यूअल सीस्टीम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
23	U92412PN2013PTC146420	आइवेनचर्स ईकोस प्रायव्हेट लिमिटेड
24	U15500PN2010PTC136636	गुड अर्थ विंटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
25	U14106PN2005PTC021747	श्री सैंड रीक्लेमेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
26	U74900PN2010PTC136158	नेट गेन फायनान्शियल कंसल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड
27	U70101PN2009FTC135175	पूने खराडी डेव्हलपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
28	U74900PN2010PTC137029	कंपीटलकनेक्ट कोर्पोरेट आडवायजरी प्रायव्हेट लिमिटेड
29	U72900PN2001PTC015762	टेक्नो क्वालीटी इफेक्टिवेशन सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
30	U93000PN2013PTC149290	शेसिल प्रायव्हेट लिमिटेड
31	U74900PN2011PTC138619	यशराज नॉन कन्वेनशनल एनर्जी सीस्टीम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
32	U27109PN1995PTC091377	अग्रवाल री-रोल स्टील्स प्रायव्हेट लिमिटेड
33	U29100PN2011PTC140191	एसजी ईनजी टेक सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
34	U31200PN1999PTC014028	श्री लेक्ट्रोनीक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
35	U72200PN2000PTC014794	ड्रोना टेक्नोलोजीस प्रायव्हेट लिमिटेड
36	U29212MH1978PTC020511	ग्रीनफार्म्स इंजीनीअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
37	U74900PN2014PTC150124	ब्रॅन्डप्रो सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड

क्र.सं.	सी आय एन	कम्पनी का नाम
38	U15143PN2009PTC135115	जीवीका हेल्थ फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
39	U72200PN2008PTC132873	पेट्रोग्ल्यफ एन्टरटेन्मेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
40	U74999PN2013PTC148703	फिनीक्स डेरी एंड ऑर्गानीक फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
41	U17121PN2007PTC130809	महाडीक कॉटस्पिन प्रायव्हेट लिमिटेड
42	U45200PN2012PTC144620	ओम स्काय प्रोपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड
43	U74200PN2007PTC131058	कीपा आर्किटेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
44	U72400PN2008PTC132419	इंवेचुर्स टेक्नोलोजीस प्रायव्हेट लिमिटेड
45	U74999PN2012PTC144210	पर्क मेडीकल स्टोर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
46	U80903PN2012PTC144772	ईड्युस्मार्ट ई-लर्निंग प्रायव्हेट लिमिटेड
47	U74900PN2012PTC142625	साक्क आईस व्हेचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
48	U51229PN2005PTC020687	नवीसो सेल्स एंड मार्केटींग प्रायव्हेट लिमिटेड
49	U45200PN2012PTC141976	कॉनक्रिव ईफ्रास्ट्रक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
50	U24119MH1969PLC014461	एम जे फर्टिलायजर्स लिमिटेड
51	U51909MH1997PTC106756	कोल्हापूर मार्केटींग प्रायव्हेट लिमिटेड
52	U29253PN2013PTC147358	ऑटोपॅक सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड
53	U24233PN2014PTC150622	ग्रेट व्हाईट रेमीडीज प्रायव्हेट लिमिटेड
54	U85191PN2013PTC148073	प्रानवेदामूत आयूर्वेद रीसर्च फाउंडेशन प्रायव्हेट लिमिटेड
55	U72900PN2014PTC151322	एफपीबीटेक इंडीया प्रायव्हेट लिमिटेड
56	U31908PN2015PTC154027	निर्दोश पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड
57	U31908PN2015PTC153991	निलकंठ ऊर्जा प्रायव्हेट लिमिटेड
58	U74900PN2008PTC132891	ए.एस एड्युपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
59	U31908PN2015PTC154009	स्वतंत्र ऊर्जा प्रायव्हेट लिमिटेड
60	U99999PN1990PTC057998	जयदिप स्टील इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड
61	U70101PN2012PTC143709	सूर्वर्णग्रीरी रीयलीटीज प्रायव्हेट लिमिटेड
62	U28920PN2006PTC021993	प्राईम ईलेक्ट्रोप्लेट प्रायव्हेट लिमिटेड

क्र.सं.	सी आय एन	कम्पनी का नाम
63	U27201PN2008PTC132486	श्री साई कोपर प्रायव्हेट लिमिटेड
64	U29225PN2006PTC129360	फाईन कट टेक्नोलोजी प्रायव्हेट लिमिटेड
65	U72200PN2013PTC146522	हरकार्ट ईपेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
66	U72200PN2002PTC016787	रीडोक्स बायोसिस्टीम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
67	U01122PN2007PTC130668	ईनोवाटीव कल्टीवेटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
68	U29299PN2006PTC021894	शाव एंड मोहीते इनजीनीयरींग (ईंडीय) प्रायव्हेट लिमिटेड
69	U93000PN2013PTC147638	ग्रीफीन फंसीलीटी मॅनेजमेंट सर्वोसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
70	U45200PN2012PTC143703	सेल्वि ईस्टेट्स एंड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
71	U74900PN2013PTC146920	ईथॉस कोर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड
72	U80903PN1998PTC013093	हरीश बुट्लेज श्रद्धा क्लासेस प्रायव्हेट लिमिटेड
73	U74900PN2011PTC138852	ग्रीनवूड मॅनेजमेंट सर्वोसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
74	U29268PN2011PTC138860	आट्लान्टिक प्रेसिसिओन पार्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
75	U74210MH1986PTC039492	ईकॉन ईंडीया प्रायव्हेट लिमिटेड
76	U45201PN2008PTC131884	जेलॉस एंजीनीयरींग सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
77	U72200PN2005PTC021129	ईक्वीनोक्स सीस्टीम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
78	U52110PN2009PTC135025	कारानओस सेल्स ईंडीया प्रायव्हेट लिमिटेड
79	U70102PN2007PTC130703	पैन टेरा ईस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
80	U31909PN2003PTC018514	पॉवेमेंट टेक्नॉलॉजीस प्रायव्हेट लिमिटेड
81	U29299PN2006PTC129199	टेक्नो लॉजिक अटॉमॅशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
82	U29299PN2008PTC131842	नेर्ब इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
83	U74999PN2011PTC141708	श्रिराम इंफोटेक सोल्युशनस प्रायव्हेट लिमिटेड
84	U72500PN2010PTC136522	अविअंस एम2एम सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड
85	U72200PN1999PTC013697	ईपोसिस सॉफ्टवेयर प्रायव्हेट लिमिटेड
86	U74999PN2011PTC141571	मास इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस प्रायव्हेट लिमिटेड
87	U74900PN2010PTC136689	युनिक टुर्क्य सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड

क्र.सं.	सी आय एन	कम्पनी का नाम
88	U72200PN2007PTC130722	पिथक्स डेरिवेटिव्स सॉफ्टवेयर प्रायव्हेट लिमिटेड
89	U51909PN2010PTC137872	विगा फार्माकेम प्रायव्हेट लिमिटेड
90	U74950PN2006PTC128825	इकोस्ट्रॉग पैकेजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
91	U29120PN2012PTC145828	डेल्टा पावरस प्रायव्हेट लिमिटेड
92	U10100PN2008PTC132687	लक्ष्य मिनिंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
93	U85100PN2011PTC138694	नंददीप हेल्थकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड
94	U72900PN2012FTC143007	ग्राविटि सिस्टेक (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
95	U55100PN2014PTC150783	बॉउने लेगॉसि हॉस्पिटलीटी प्रायव्हेट लिमिटेड
96	U74120PN2001PTC015737	टैक्स डॉक्टर सेर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
97	U72200PN2010PTC135591	भानु इंफोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
98	U45201PN2005PTC021095	प्रज्ञापुरि बिल्ड्स अँड डेव्होपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
99	U72200PN2011PTC140188	वेगतम टेक्नॉलॉजीस प्रायव्हेट लिमिटेड
100	U32109PN2005PTC020507	अविद प्रेसिकॉम प्रायव्हेट लिमिटेड
101	U74900PN2010PTC137450	वैकट्सया फॉर्ज प्रायव्हेट लिमिटेड
102	U74900PN2011PTC139373	गोल्डफिल्ड्स कंसल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
103	U52190PN2009PTC134508	क्रेटिव्ह माईड सेल्स अँड सेर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
104	U22210PN2010PTC137683	डू न्युज नेटवर्क प्रायव्हेट लिमिटेड
105	U74900PN2010PTC137649	आदित्या कुरुंदकर कंसल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
106	U45200PN2007PTC131214	औसेकर डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
107	U74900PN2014PTC150932	सिम्प्लीफायर बिजनेस सोल्युशनस प्रायव्हेट लिमिटेड
108	U85110PN2008PLC131380	मंगलमुर्ति हॉस्पिटल्स अँड डायग्नोस्टिक लिमिटेड
109	U55101PN2011PTC138301	एजी स्पा अँड रेट्रैक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
110	U51909PN2014PTC152135	साईमा वर्ल्ड प्रायव्हेट लिमिटेड
111	U01409PN1991PTC062914	सुपर मायक्रोनुट्रिण्ट्स पिक्विटि एलटिडि
112	U51909PN2009PTC134421	ब्लु ईरा इंजिनीरींग प्रायव्हेट लिमिटेड

क्र.सं.	सी आय एन	कम्पनी का नाम
113	U27201PN2008PTC132486	श्री साई कॉप्पेर प्रायव्हेट लिमिटेड
114	U29196PN2007PTC131064	रॉक्वे वेजिंग टेक्नॉलॉजीस प्रायव्हेट लिमिटेड
115	U74900PN2011PTC141201	जि-स्कुअरे इंटेरिओर सोल्युशनस प्रायव्हेट लिमिटेड
116	U85110PN2007PTC130875	श्री ओम मल्टिस्पेसिलिटि हेल्थकेअर (पुणे) प्रायव्हेट लिमिटेड
117	U99999MH1986PTC038888	वेरो बॉयलरमैन पिक्विटि एलटिडि
118	U50200MH1997PTC105355	मेगा व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड
119	U74999PN2011PTC139230	बेनेडिक्ट हेल्थकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड
120	U63090PN2013PTC149083	सायनेत्रन्स ट्रव्हेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
121	U70200PN2008PTC132379	ऐरवत रिअल्टॉर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
122	U72200PN2011PTC138401	सैम वेब सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड
123	U55101PN2013PTC148366	श्रीहरि बिज़्कॉर्प प्रायव्हेट लिमिटेड
124	U01122PN2009PTC133391	सेकुओइअ बायो-सोल्युशनस प्रायव्हेट लिमिटेड
125	U74210PN2001PTC016134	इंटेग्रेटेड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
126	U24119PN2007PTC131056	एसपी पॉलिसिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
127	U45200PN2011PTC138462	अमित संकुल प्रायव्हेट लिमिटेड
128	U45200PN2011PTC140927	अमित सबअर्बन डेव्हलपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
129	U45200PN2010PTC137863	अमित टॉउनशिपस प्रायव्हेट लिमिटेड
130	U72900PN2012PTC143567	प्रोडिज़ी इंफोटेक सोल्युशनस प्रायव्हेट लिमिटेड
131	U15429PN2005PTC021376	निकिता फुड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
132	U74900PN2012PTC141977	ओयसिसि आडियाज अँड मुल्टिलिंक सोल्युशनस प्रायव्हेट लिमिटेड
133	U45200PN2014PTC152226	युनिवर्सो लैन्ड्माक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
134	U72200PN2014PTC151573	कैटेक सोल्युशनस प्रायव्हेट लिमिटेड
135	U74900PN2012PTC143787	प्रिस्टिने कॉर्पोरेट कंसल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड
136	U67190PN2011PTC138937	मँग चिट फन्ड प्रायव्हेट लिमिटेड
137	U72900PN2014PTC151352	ऑबजरवेक्स टेक प्रायव्हेट लिमिटेड
138	U72900PN2011PTC139421	डि बी नेट्सुर्फ सॉफ्टवेअर (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड

क्र.सं.	सी आय एन	कम्पनी का नाम
139	U65923PN2013PTC149260	ऐऐडी फायनासिल कंस्ट्रक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
140	U65992PN2013PTC146663	शिवराज चिट फंड प्रायव्हेट लिमिटेड
141	U65999PN2015PTC155365	असोसिएटेड चिट फंड कामशेत प्रायव्हेट लिमिटेड
142	U74900PN2014PTC151597	ए ४ यु प्लस प्रोडक्शन अँड मार्केटींग प्रायव्हेट लिमिटेड
143	U72900PN2000PTC015621	ग्यान इंफोसेर्वे प्रायव्हेट लिमिटेड
144	U74900PN2014PTC151339	साईराज अँपलायमेंस प्रायव्हेट लिमिटेड
145	U55101PN2008PTC131420	ट्राय हेल्थ फार्मस अँड रिसॉर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
146	U72900PN2013PTC148611	के जी मॅप सॉल्यूशंस प्रायव्हेट लिमिटेड
147	U50403PN2012PTC142693	एस्कलेडे ऑटो प्रायव्हेट लिमिटेड
148	U51109PN2008PLC135179	अँनजेल मुल्टिट्रेड मार्केटींग प्रायव्हेट लिमिटेड
149	U72200MH1992PTC067771	सुहास सॉफ्टवेअरस अँड कंसल्टन्सी प्रिवि. लि. एल.टी.डी.
150	U74900PN2014PTC151404	जेम्बा इलेक्ट्रो-मेकैनिक्ल सॉल्यूशंस प्रायव्हेट लिमिटेड
151	U51909PN2009PTC135097	माने पाटिल इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
152	U29299PN2004PTC018755	नॅनोटेक इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
153	U29299PN2005PTC021697	वेल्डटेक सॉल्यूशंस प्रायव्हेट लिमिटेड
154	U72200PN2011PTC140307	इक्युब्स कंस्ट्रुक्शंस प्रायव्हेट लिमिटेड
155	U72200PN2004PTC018833	नेक्स्टलेंट सॉल्यूशंस प्रायव्हेट लिमिटेड
156	U74900PN2010PTC137648	अर्थमंत्रा इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड

शामराव दत्तात्रय पाटील
सहायक कंपनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

एल एल पी नियम 2009 और निम्नलिखित एल एल पी के सम्बंध में

पुणे, दिनांक 17 फरवरी 2016

सं. आर सो सी पी/नियम 37(3)/एस टी ए/2016/1815—एल. एल. पी. नियम 2009 के नियम क्र. 37(3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित एल. एल. पी. के नाम रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त एल. एल. पी. विघटीत हो गई है :—

क्र.सं.	एल .एल .पी .संख्या	एल .एल .पी .का नाम
1.	AAA-1229	निरख्या मैनेजमेंट एडवायजर्स एल एल पी
2	AAA-4256	इशा पिसोळी प्रोजेक्ट्स एल एल पी

क्र.सं.	एल .एल .पी .संख्या	एल .एल .पी .का नाम
3.	AAB-4316	पी पी एस ग्लोबल एल एल पी
4.	AAC-0880	भूमी इन्फ्रासीटी एल एल पी
5.	AAC-0899	भूमी टाउनशिप एल एल पी
6.	AAC-0608	भूमी वास्तु एल एल पी
7.	AAC-3090	नोवास्पेस कंन्ट्रक्शन एल एल पी
8.	AAC-3122	नोवास्पेस इन्फ्रास्ट्रक्चर एल एल पी
9.	AAB-0250	बृहद एंटरप्राइजेस एल एल पी
10.	AAA-8979	यशोदित्य स्पोर्ट्स एल एल पी

एस. डी. पाटील
सहायक कंपनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
(DELHI SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT)

New Delhi-110003, the 11th February 2016

No. DPPERS.I/2016/23/3/45/2014-Pers-I—Shri S. Billi Christodoss, Dy. Supdt. of Police, CBI, DSPE, SCB, Chennai has relinquished charge of the post of Dy. Supdt. of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 31.01.2016 on attaining the age of retirement on superannuation.

DEEPIKA SURI
Deputy Director (Pers.)

New Delhi-110003, the 16th February 2016

No. DPPERS.I/2016/26/11/3/2015—The President is pleased to appoint the following Public Prosecutors, CBI as Senior Public Prosecutors in CBI, Special Police Establishment, on promotion w.e.f. the dates mentioned against their names:—

S. No.	Name of the Officers (S/Shri)	Date of Appointment as Senior Public Prosecutors
1	Praveen Srivastava	31.12.2015
2	Brijesh Singh	31.12.2015
3	Sintanshu Sekhar Mishra	31.12.2015
4	Manoj Shukla	31.12.2015
5	Dr. Padmini Singh	31.12.2015
6	Narendra Pratap Srivastava	31.12.2015
7	Arvind Kumar Mishra	31.12.2015
8	Praneet Sharma	31.12.2015
9	Smt. Poornima D.S.	01.01.2016
10	Raman Kumar	31.12.2015
11	S.C. Jaiswal	31.12.2015
12	Pankaj Gupta	31.12.2015
13	Manmohan Sharma	31.12.2015
14	Tejasvi Prakash Negi	31.12.2015
15	Brijesh Kumar Singh	31.12.2015
16	S. Krishna Kumar	31.12.2015
17	Shailesh Narayana Pathak	31.12.2015

D. P. SINGH
Admin. Officer (Pers)

No. DPPERS.I/2016/27/36/2/2016—The President is pleased to appoint the following Assistant Public Prosecutors, CBI as Public Prosecutors in CBI, Special Police Establishment, on promotion w.e.f. the dates mentioned against their names:—

S. No.	Name of the Officers (S/Shri)	Date of Appointment as Public Prosecutors
1	Shivananda B.R.	29.01.2016
2	Vijay Krishna Pathak	29.01.2016
3	Rajat Kumar Shrivastava	01.02.2016
4	Neetu Singh	29.01.2016
5	Rattan Deep Singh	29.01.2016
6	Mhaske Dhammanand Nagnath	29.01.2016

D. P. SINGH
Admin. Officer (Pers)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DIRECTORATE GENERAL, CRPF)

New Delhi-110 003, the 11th February 2016

No.P.VII-1/2016-MIN-DA-7—Consequent on their promotion to the post of Assistant Commandant [Ministerial], the following Subedar Majors [Ministerial] have taken over charge as Assistant Commandant [Ministerial] in the offices and dates as mentioned against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office in which charge taken over	Date of taking over charge
01	Shri Jagbandhu Soren Assistant Commandant [IRLA-10550]	Dy. Inspector General of Police, Group Centre, Central Reserve Police Force, Bhopal[MP].	20/08/2015 [FN]
02	Shri Chandra Mohan Chakraborty, Assistant Commandant [IRLA-10554]	Dy. Inspector General of Police, Group Centre, Central Reserve Police Force, Ranchi[J&K].	31/07/2015 [FN]
03	Shri Virendra Kumar Singh, Assistant Commandant [IRLA-10556]	Dy. Inspector General of Police, Group Centre, Central Reserve Police Force, Amethi [UP].	20/07/2015 [FN]
04	Shri Shibaram Ghosh, Assistant Commandant [IRLA-10557]	Dy. Inspector General of Police, Group Centre, Central Reserve Police Force, Bilaspur[CG].	10/08/2015 [FN]
05	Shri Raghunandan Khandelwal, Assistant Commandant [IRLA-10559]	Dy. Inspector General of Police, Range HQr, Central Reserve Police Force, Kootah[J&K].	03/08/2015 [FN]
06	Shri Baghdaman Singh, Assistant Commandant [IRLA-10560]	Dy. Inspector General of Police, Range HQr, Central Reserve Police Force, Jammu[J&K].	13/07/2015 [FN]
07	Shri R.K. Raut, Assistant Commandant [IRLA-10564]	Dy. Inspector General of Police, Group Centre, Central Reserve Police Force, Silchar[Assam].	30/06/2015 [FN]
08	Shri G.P. Routray, Assistant Commandant [IRLA-10580]	Dy. Inspector General of Police, Group Centre, Central Reserve Police Force, Muzaffarpur[Bihar].	19/10/2015 [FN]
09	Shri K.Navaneetha Kumar, Assistant Commandant [IRLA-10731]	Dy. Inspector General of Police, Group Centre, Central Reserve Police Force, Srinagar[J&K].	26/12/2015 [FN]

Sl . No.	Name of Officer	Office in which charge taken over	Date of taking over charge
10	Shri Marichamy, Assistant Commandant [IRLA-10733]	Dy. Inspector General of Police, Range HQr, Central Reserve Police Force, Neemuch [MP]	09/12/2015 [FN]
11	Shri Nathu Singh, Assistant Commandant [IRLA-10734]	Inspector General of Police, Rajasthan Sector, Central Reserve Police Force, Jaipur.	17/11/2015 [FN]
12	Shri C. Raghunathan, Assistant Commandant [IRLA-10735]	Dy. Inspector General of Police, Group Centre, Central Reserve Police Force, Kootah[J&K].	14/12/2015 [FN]
13	Shri Madhusudan, Assistant Commandant [IRLA-10738]	Dy. Inspector General of Police, Group Centre, Central Reserve Police Force, Allahabad[UP].	12/12/2015 [FN]
14	Shri Pradeep Katoch, Assistant Commandant [IRLA-10739]	Dy. Inspector General of Police, Range HQr, Central Reserve Police Force, Srinagar South [J&K]	16/11/2015 [FN]
15	Shri Jarnail Singh, Assistant Commandant [IRLA-10745]	Dy. Inspector General of Police, Group Centre, Central Reserve Police Force, Ranchi[JKD].	07/01/2016 [FN]

S. K. UPADHYAY
DIG (Org)

DIRECTOR GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-03, the 9th February 2016

NO.E.38013/01/NOTI./GOs/2016/PERS.I/77—In exercise of power under Rule-5 of the CISF Rules-2001, the competent authority has conferred the local rank of Assistant Commandant (Exe) to the following Inspector (Exe) of CISF, with effect from the date noted against each:—

Name of Officer (Shri)	Office/Unit where assumed the charge	Date of Assumption of charge as AC/Exe (Local Rank)
IZHAR AHMAD	NSPCL ROURKELA	05.02.2016/AN

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

NO.E.38013/01/NOTI./GOs/2016/PERS.I/79—The President is pleased to appoint the following Senior Commandant/Fire on regular promotion to the rank of Deputy Inspector General/Fire in the pay scale of Rs.37,400 — 67,000/- (PB-4) (+) Grade pay of Rs.8,900/- on regular basis in CISF with effect from the date mentioned against him :—

Name of Officer (Shri)	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Deputy Inspector General/Fire on regular basis
RAJNATH SINGH	FHQRS NEW DELHI	05.02.2016/AN

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

The 15th February 2016

No.E-38013/01/NOTI./GOs/2016/PERS-1/88—The President is pleased to appoint the following Inspector (Steno), on regular promotion to the rank of Assistant Commandant(JAO) in the pay scale of Rs.15,600-39,100 (+) Grade Pay of Rs.5,400/- in CISF with effect from the date noted against each:—

Name of Officer (Shri)	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as AC(JAO) on regular basis
VARINDER KUMAR BHATIA	10 TH RES.BN.ARAKKONAM	12.02.2016/FN

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
(RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY)

Indore, the 15th February 2016

No. RRCAT/Admin/2015/R-805/136—The President of India is pleased to appoint the following Technical Officer/B (PB:2, Rs. 9300-34800/- + Grade Pay Rs. 4,800/-) as Technical Officer/C (PB:3, ` 15600-39100 + Grade Pay Rs. 5,400/-) on promotion with effect from 01.07.2015 (Forenoon) in Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore until further orders :-

C.C. No.	Name	Division/ Section
1529	Shri Md. Ali Ansari	LESD

B.K. JENA
Chief Administrative Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
(OFFICE OF REGISTRAR OF COMPANIES)

In the matter of companies Act 1956, and of the following Companies

Pune-4, the 16th February 2016

No. ROC/PTE/560(5)/2016/1032—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved:—

Sr. No.	CIN	Companies Name
1	U74999PN2010PTC137612	RUDRA CATERING SERVICES PRIVATE LIMITED
2	U55101PN2013PTC146194	OLD BOYS FOOD & HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
3	U72900PN2011PTC139287	VENTURIA CONSULTING PRIVATE LIMITED
4	U74900PN2013PTC147336	ELKOT ENGINEERING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
5	U63090PN2012PTC145077	Hello Wings Travels Private Limited
6	U74900PN2010PTC137650	UNISAR MARKETING PRIVATE LIMITED
7	U52399PN2012PTC145059	RIDDHI SIDDHI AVENUE PRIVATE LIMITED
8	U29244PN2013PTC147096	Ethair Microfilt Private Limited
9	U74900PN2012PTC145147	GAURI CORPORATION PRIVATE LIMITED
10	U29268PN2011PTC139616	SHUBHAM TOOLS PRIVATE LIMITED

Sr. No.	CIN	Companies Name
11	U15136PN2012PTC145464	All Gold Pickles Private Limited
12	U55101PN2005PTC021310	CONSHIP HOTELS PRIVATE LIMITED
13	U28999PN2010PTC137426	EK-ONKAR AUTO ENGINEERING PRIVATE LIMITED
14	U01122PN2005PTC021730	BONNE IDEE AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
15	U72200PN2011PTC140520	UMBRELLA INFO TECH PRIVATE LIMITED
16	U74900PN2010PTC136565	P-TRONICS CONTROLS PRIVATE LIMITED
17	U74999PN2010PTC135297	TRACKPOINT TRADEX PRIVATE LIMITED
18	U29222PN2013FTC148178	Vicura India Private Limited
19	U74140PN2010PTC137107	OVERALL MANAGEMENT CONSULTANCY AND INFOMEDIA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
20	U74999PN2014PTC151629	SUPER DENTAL DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED
21	U45400PN2013PTC149471	PRISM REAL SPACES PRIVATE LIMITED
22	U40106PN2012PTC143067	High Flux Solar Fuel Systems Private Limited
23	U92412PN2013PTC146420	Adventure Echoes Private Limited
24	U15500PN2010PTC136636	GOOD EARTH VINTNERS PRIVATE LIMITED
25	U14106PN2005PTC021747	SHREE SAND RECLAMATIONS PRIVATE LIMITED
26	U74900PN2010PTC136158	NET GAIN FINANCIAL CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
27	U70101PN2009FTC135175	Pune Kharadi Development Private Limited
28	U74900PN2010PTC137029	CAPITALCONNECT CORPORATE ADVISORY PRIVATE LIMITED
29	U72900PN2001PTC015762	TECHNO QUALITY INFORMATION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
30	U93000PN2013PTC149290	SHESIL PRIVATE LIMITED
31	U74900PN2011PTC138619	YASHRAJ NON CONVENTIONAL ENERGY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
32	U27109PN1995PTC091377	AGARWAL RE-ROLL STEELS PRIVATE LIMITED
33	U29100PN2011PTC140191	SG Engi Tech Solutions Private Limited
34	U31200PN1999PTC014028	SHREE LEKTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED
35	U72200PN2000PTC014794	DRONA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
36	U29212MH1978PTC020511	GREENFARMS ENGINEERS PVT LTD
37	U74900PN2014PTC150124	BRANDPRO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
38	U15143PN2009PTC135115	JEEVAKA HEALTH FOODS PRIVATE LIMITED
39	U72200PN2008PTC132873	PETROGLYPH ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
40	U74999PN2013PTC148703	PHYNIX DAIRY AND ORGANIC FARMS PRIVATE LIMITED
41	U17121PN2007PTC130809	MAHADIK COTSPIN PRIVATE LIMITED
42	U45200PN2012PTC144620	OM SKY PROPERTIES PRIVATE LIMITED
43	U74200PN2007PTC131058	KIPA Architects Private Limited
44	U72400PN2008PTC132419	INVENTURES TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
45	U74999PN2012PTC144210	PERK MEDICAL STORES PRIVATE LIMITED
46	U80903PN2012PTC144772	EDUSMART E-LEARNING PRIVATE LIMITED

Sr. No.	CIN	Companies Name
47	U74900PN2012PTC142625	SAKK ICE VENTURES PRIVATE LIMITED
48	U51229PN2005PTC020687	NAVISO SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED
49	U45200PN2012PTC141976	CONCREW INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
50	U24119MH1969PLC014461	M J FERTILIZERS LTD
51	U51909MH1997PTC106756	KOLHAPUR MARKETING PRIVATE LIMITED
52	U29253PN2013PTC147358	AUTOPACK SOLUTION PRIVATE LIMITED
53	U24233PN2014PTC150622	GREAT WHITE REMEDIES PRIVATE LIMITED
54	U85191PN2013PTC148073	Pranavedanmrut Ayurved Research Foundation Private Limited
55	U72900PN2014PTC151322	FPBTECH INDIA PRIVATE LIMITED
56	U31908PN2015PTC154027	NIRDOSH POWER PRIVATE LIMITED
57	U31908PN2015PTC153991	Neelkanth Urja Private Limited
58	U74900PN2008PTC132891	A. S. EDUPOINT PRIVATE LIMITED
59	U31908PN2015PTC154009	SWATANTRA URJA PRIVATE LIMITED
60	U99999PN1990PTC057998	JAYDEEP STEEL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
61	U70101PN2012PTC143709	SUVARNAGIRI REALTIES PRIVATE LIMITED
62	U28920PN2006PTC021993	PRIME ELECTROPLATE COATING PRIVATE LIMITED
63	U27201PN2008PTC132486	SHRI SAI COPPER PRIVATE LIMITED
64	U29225PN2006PTC129360	FINE CUT TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
65	U72200PN2013PTC146522	HERcart Impex Private Limited
66	U72200PN2002PTC016787	REDOX BIOSYSTEMS PRIVATE LIMITED
67	U01122PN2007PTC130668	INNOVATIVE CULTIVATORS PRIVATE LIMITED
68	U29299PN2006PTC021894	SHAW AND MOHITE ENGINEERING (INDIA) PRIVATE LIMITED
69	U93000PN2013PTC147638	GRIFFIN FACILITY MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
70	U45200PN2012PTC143703	SELVI ESTATES AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
71	U74900PN2013PTC146920	ETHOS CORPORATION PRIVATE LIMITED
72	U80903PN1998PTC013093	HARISH BUTLE'S SHRADDHA CLASSES PRIVATE LIMITED
73	U74900PN2011PTC138852	GREENWOOD MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
74	U29268PN2011PTC138860	ATLANTIC PRECISION PARTS PRIVATE LIMITED
75	U74210MH1986PTC039492	IECCON INDIA Private Limited
76	U45201PN2008PTC131884	Zealous Engineering Solutions Private Limited
77	U72200PN2005PTC021129	EQUINOX SYSTEMS PRIVATE LIMITED
78	U52110PN2009PTC135025	KARANOS SALES INDIA PRIVATE LIMITED
79	U70102PN2007PTC130703	PAN TERRA ESTATES PRIVATE LIMITED
80	U31909PN2003PTC018514	POWERMATE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
81	U29299PN2006PTC129199	TECHNO LOGIC AUTOMATIONS PRIVATE LIMITED
82	U29299PN2008PTC131842	Nerb India Private Limited
83	U74999PN2011PTC141708	SHRIRAM INFOTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
84	U72500PN2010PTC136522	AVIANS M2M SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

Sr. No.	CIN	Companies Name
85	U72200PN1999PTC013697	IOPSIS SOFTWARE PRIVATE LIMITED
86	U74999PN2011PTC141571	MAAS Institute of Medical Sciences Private Limited
87	U74900PN2010PTC136689	Unique Turnkey Solutions Private Limited
88	U72200PN2007PTC130722	PYXIS DERIVATIVES SOFTWARE PRIVATE LIMITED
89	U51909PN2010PTC137872	VIGA PharmaChem Private Limited
90	U74950PN2006PTC128825	ECOSTRONG PACKAGING PRIVATE LIMITED
91	U29120PN2012PTC145828	DELPHI POWERS PRIVATE LIMITED
92	U10100PN2008PTC132687	LAKSHYA MINING INDIA PRIVATE LIMITED
93	U85100PN2011PTC138694	NANDADEEP HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
94	U72900PN2012FTC143007	GRAVITY SYSTECH (INDIA) PRIVATE LIMITED
95	U55100PN2014PTC150783	BOURNE LEGACY HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
96	U74120PN2001PTC015737	TAX DOCTOR SERVICES PRIVATE LIMITED
97	U72200PN2010PTC135591	BHANU INFOTECH PRIVATE LIMITED
98	U45201PN2005PTC021095	PRADNYAPURI BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
99	U72200PN2011PTC140188	Vegatam Technologies Private Limited
100	U32109PN2005PTC020507	AVID PRECICOMP PRIVATE LIMITED
101	U74900PN2010PTC137450	VENKATTSAYA FORRGE PRIVATE LIMITED
102	U74900PN2011PTC139373	GOLDFIELDS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
103	U52190PN2009PTC134508	CREATIVE MIND SALES & SERVICES PRIVATE LIMITED
104	U22210PN2010PTC137683	TRUE NEWS NETWORK PRIVATE LIMITED
105	U74900PN2010PTC137649	ADITYA KURUNDKAR CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
106	U45200PN2007PTC131214	AUSEKAR DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
107	U74900PN2014PTC150932	SimpliFire Business Solutions Private Limited
108	U85110PN2008PLC131380	Mangalmurti Hospital & Diagnostic Limited
109	U55101PN2011PTC138301	AG Spa And Retreats Private Limited
110	U51909PN2014PTC152135	SAIMAA WORLD PRIVATE LIMITED
111	U01409PN1991PTC062914	SUPER MICRONUTRIENTS PVT LTD
112	U51909PN2009PTC134421	BLUE ERA ENGINEERING PRIVATE LIMITED
113	U27201PN2008PTC132486	SHRI SAI COPPER PRIVATE LIMITED
114	U29196PN2007PTC131064	ROCKWAY WEIGHING TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
115	U74900PN2011PTC141201	G-SQUARE INTERIOR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
116	U85110PN2007PTC130875	SHRI OM MULTISPECIALITY HEALTHCARE (PUNE) PRIVATE LIMITED
117	U99999MH1986PTC038888	VERO BOILERMAN PVT LTD
118	U50200MH1997PTC105355	MEGA WHEELS PRIVATE LIMITED
119	U74999PN2011PTC139230	Benedict Healthcare Private Limited
120	U63090PN2013PTC149083	Synetrans Travels Private Limited
121	U70200PN2008PTC132379	AIRAVAT REALTORS PRIVATE LIMITED

Sr. No.	CIN	Companies Name
122	U72200PN2011PTC138401	SAIM WEB SOLUTION PRIVATE LIMITED
123	U55101PN2013PTC148366	Shreehari Bizcorp Private Limited
124	U01122PN2009PTC133391	SEQUOIA BIO-SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
125	U74210PN2001PTC016134	INTEGRATED CONSTRUCTION PROJECTS PRIVATE LIMITED
126	U24119PN2007PTC131056	SP POLYSYSTEMS PRIVATE LIMITED
127	U45200PN2011PTC138462	Amit Sankul Private Limited
128	U45200PN2011PTC140927	AMIT SUBURBAN DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
129	U45200PN2010PTC137863	AMIT TOWNSHIPS PRIVATE LIMITED
130	U72900PN2012PTC143567	Prodizee Infotech Solutions Private Limited
131	U15429PN2005PTC021376	NIKITA FOODS PRIVATE LIMITED
132	U74900PN2012PTC141977	OASIS IDEAS AND MULTILINK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
133	U45200PN2014PTC152226	UNIVERSO LANDMARKS PRIVATE LIMITED
134	U72200PN2014PTC151573	KAITEC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
135	U74900PN2012PTC143787	PRISTINE CORPORATE CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
136	U67190PN2011PTC138937	MAG Chit Fund Private Limited
137	U72900PN2014PTC151352	Observex Tech Private Limited
138	U72900PN2011PTC139421	D B NETSURF SOFTWARE (INDIA) PRIVATE LIMITED
139	U65923PN2013PTC149260	AAD FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
140	U65992PN2013PTC146663	Shivraj Chit Fund Private Limited
141	U65999PN2015PTC155365	ASSOCIATED CHIT FUND KAMSHET PRIVATE LIMITED
142	U74900PN2014PTC151597	A 4 U PLUS PRODUCTION AND MARKETING PRIVATE LIMITED
143	U72900PN2000PTC015621	GYAAN INFOSERVE PRIVATE LIMITED
144	U74900PN2014PTC151339	SAIRAJ APPLIANCES PRIVATE LIMITED
145	U55101PN2008PTC131420	TRY HEALTH FARMS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
146	U72900PN2013PTC148611	K G MAP SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
147	U50403PN2012PTC142693	ESCALEDE AUTO PRIVATE LIMITED
148	U51109PN2008PLC135179	ANGEL MULTITRADE MARKETING LIMITED
149	U72200MH1992PTC067771	SUHAS SOFTWARES AND CONSULTANCY PVT.LTD.
150	U74900PN2014PTC151404	GEMBA ELECTRO-MECHANICAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
151	U51909PN2009PTC135097	MANE PATIL IMPEX PRIVATE LIMITED
152	U29299PN2004PTC018755	NANOTECH ENGINEERS PRIVATE LIMITED
153	U29299PN2005PTC021697	WELDTech SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
154	U72200PN2011PTC140307	Equbes Consulting Private Limited
155	U72200PN2004PTC018833	NexTalent Solutions Private Limited
156	U74900PN2010PTC137648	ARTHAMANTRA INVESTMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED

S. D. PATIL
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of LLP Rules 2009, and of the following Companies

Pune, the 17th February 2016

No. ROCP/Rule 37(3)/STA/2016/1815—Notice is hereby given pursuant to Rules 37(3) of the LLP Rules 2009 that the names of the LLPs have been struck of Register and the said companies are dissolved:—

Sr. No.	LLPIN	Name of LLP
1.	AAA-1229	NIRKHYA MANAGEMENT ADVISORS LLP
2	AAA-4256	EISHA PISOLI PROJECTS LLP
3.	AAB-4316	PPS GLOBAL LLP
4.	AAC-0880	BHUMI INFRACITY LLP
5.	AAC-0899	BHUMI TOWNSHIP LLP
6.	AAC-0608	BHUMI VASTU LLP
7.	AAC-3090	NOVASPACE CONSTRUCTION LLP
8.	AAC-3122	NOVASPACE INFRASTRUCTURE LLP
9.	AAB-0250	BRUHAD ENTERPRISES LLP
10.	AAA-8979	YASHODITYA SPORTS LLP

S. D. PATIL
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in